

# Jer

## Chapter 16

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְהִי וַיְבָרֵךְ אֱלֹהִים אֶת-יְהוָה לֵאמֹר: 1  
और-हुआ और-वचन-यहोवा-का मुझे कहते-हुए  
H1961 H1697 H3068 H0413 H0559

यहोवा का सन्देश मुझे मिला।

לֹא-תִקַּח לְאִשְׁתְּךָ אִשָּׁה כִּי-לֵא-תִקַּח לְאִשְׁתְּךָ אִשָּׁה 2  
नहीं-लेना अपने-लिए ली पत्नी और-नहीं-और-पत्नी  
H3808 H3947 H0802 H3808 H1961 H3808 H0802

“यिर्मयाह, तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये। तुम्हें इस स्थान पर पुत्र या पुत्री पैदा नहीं करना चाहिये।”

כִּי-כִּי-יְהוָה אָמַר וַיְהִי עַל-הַבְּנִים וְעַל-הַבָּנוֹת הַיְלִודִים בְּמִקְוֵם 3  
क्योंकि-ऐसा कहता-है यहोवा पर-बेटों और-पर-बेटियों जन्मे-हुई जन्मे-हुई  
H0517 H3205 H0853 H3068 H0559 H3541 H2088 H4725 H3205 H1323

אֲמַתְּ אֲמַתְּ הַיְלִודוֹת וְעַל-אֲבוֹתָם הַמּוֹלְדִים אוֹתָם בְּאֶרֶץ הַזֹּאת: 4  
उनकी-माताओं उनकी-वालियों जनने-वालियों और-पर-उनको उनके-पिताओं जन्म-दने-वालों उनको भूमि-में इस  
H0517 H3205 H0853 H0001 H3205 H0853 H0776 H2063

यहूदा देश में जन्म लेने वाले पुत्र—पुत्रियों के बारे में यहोवा यह कहता है, और उन बच्चों के माता—पिता के बारे में जो यहोवा कहता है, वह यह है:

מִמּוֹתַי מִמּוֹתַי תִּחְלָאִים יָמָתוּ לֹא יִסְפְּדוּ וְלֹא יִקְבְּרוּ לְדָמָן עַל-פָּנַי 4  
मृत्युओं-से मृत्युओं-की मरेंगे नहीं विलाप-किया-जाएगा और-नहीं गाड़े-जाएंगे खाद-की-तरह पर-सतह  
H4463 H8463 H4191 H3808 H5594 H3808 H6912 H1828 H6440

הָאָרֶץ בְּהִי וַיְהִי וּבְחַרְבֵּי יָבֵל וּבְחַרְבֵּי יָבֵל וּבְחַרְבֵּי יָבֵל 5  
भूमि होंगे और-तलवार-से और-अकाल-से और-होगी और-लाशें खाने-के-लिए पक्षियों-को  
H0127 H1961 H2719 H7458 H3615 H1961 H5038 H3978 H5775

הַשָּׁמַיִם וּלְבַהֲמַת הָאָרֶץ: 6  
आकाश-के और-पशुओं-को पृथ्वी-के  
H8064 H0929 H0776

“वे लोग भयंकर मृत्यु के शिकार होंगे। उन लोगों के लिये कोई रोएगा नहीं। कोई भी व्यक्ति उन्हें दफनायेगा नहीं। उनके शव जमीन पर गोबर की तरह पड़े रहेंगे। वे लोग शत्रु की तलवार के घाट उतरेंगे या भूखों मरेंगे। उनके शव आकाश के पक्षियों और भूमि के जंगली जानवरों का भोजन बनेंगे।”

כִּי-כִּי-אָמַר יְהוָה אֶל-תָּבוֹא בֵּית גִּבְעָה וְאֶל-מְרִיחַ וְאֶל-תְּלַח 5  
क्योंकि-ऐसा कहता-है यहोवा मत-जाना और-मत-शोक-सभा-के घर-में जाना और-मत-जाना  
H3541 H0559 H3068 H0408 H0935 H4798 H0408 H3212 H5594

וְאֶל-תָּנֹד לְהֵם כִּי-אֶסְפְּרֵי אֶת-שְׁלוֹמִי מֵאֵת הָעַם 6  
और-मत-शोक-मनाना उनके-लिए क्योंकि-हटा-लिया-मैंने को-अपनी-शांति से लोगों-इन  
H0408 H5110 H0622 H0853 H7965 H0854 H2088 H5002

יְהוָה אֶת-הַחֲסָד וְאֶת-הַחֲסָד: 7  
यहोवा को-कृपा और-को-दया  
H3068 H0853 H0853

अतः यहोवा कहता है, “यिर्मयाह, उन घरों में न जाओ जहाँ लोग अन्तिम क्रिया की दावत खा रहे हैं। वहाँ मरे के लिये रोने या अपना शोक प्रकट करने न जाओ। ये सब काम न करो। क्यों क्योंकि मैंने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया है। मैं यहूदा के इन लोगों पर दया नहीं करूँगा। मैं उनके लिये अफसोस नहीं करूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है।

6 וַיִּמְתּוּ אֹרְחֵי וְגַדְלֵי וּקְטַנִּים בְּאֶרֶץ הַחַיָּת לֹא יִקְבְּרוּ וְלֹא- וְיִסְפְּדוּ לָהֶם  
 और-मरेंगे और-छोटे और-भूमि-में इस नहीं गाड़े-जाएंगे और-नहीं- विलाप-किया-जाएगा उनके-लिए  
 H4191 H0776 H2063 H3808 H6912 H3808 H5594 H1992

וְלֹא- וַיִּתְגַּדְּרוּ וְלֹא- יִקְרָח וְלֶהֱם:  
 और-नहीं चीरे-काटेंगे-अपने-शरीर और-नहीं मुड़ाएंगे उनके-लिए  
 H3808 H1413 H3808 H7139

“यहूदा देश में महत्वपूर्ण लोग और साधारण लोग मरेंगे। कोई व्यक्ति उन लोगों को न दफनायेगा न ही उनके लिये रोएगा। इन लोगों के लिये शोक प्रकट करने को न तो कोई अपने को काटेगा और न ही अपने सिर के बाल साफ करायेगा।

7 וְלֹא- וַיִּבְרְסוּ לָהֶם- עַל- אֲבֵל לְנַחֲמוֹ עַל- מֵת וְלֹא- יִשְׁקוּ אֹתָם  
 और-नहीं- बांटेंगे उनके-लिए पर- शोक पर- सांत्वना-देने-को-उसे पर- मृत और-नहीं- पिलाएंगे उनको  
 H3808 H6536 H0060 H5162 H4191 H8248 H853

כּוֹס תְּנַחֲמוּם עַל- אָבִיו וְעַל- אִמּוֹ:  
 सांत्वना-का प्याला पर- उसके-पिता और-पर- उसकी-मां  
 H8575 H0001 H0517

कोई व्यक्ति उन लोगों के लिये भोजन नहीं लाएगा जो मरे के लिए रो रहे होंगे। जिनके माता पिता मर गए होंगे उन लोगों को कोई व्यक्ति समझाये बुझायेगा नहीं। जो मरे के लिये रो रहे होंगे उन्हें शान्त करने के लिये कोई व्यक्ति दाखमधु नहीं पिलायेगा।”

8 וּבֵית- מִשְׁתָּה לֹא- תָבוֹא לְשִׁבַת אוֹתָם לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת: ס  
 और-घर-में- भोज-के नहीं- जाना बैठने-को उनके-साथ खाने-को और-पीने-को  
 H4960 H3808 H0935 H3427 H0853 H0398 H8354

“यिर्मयाह, उस घर में न जाओ जहाँ लोग दावत खा रहे हो। उस घर में न जाओ और उनके साथ बैठकर न खाओ न दाखमधु पीओ।

9 כִּי כֵן אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הִנְנִי מְשַׁבֵּית מִן- הַמְּקוֹם  
 क्योंकि ऐसा कहता-है यहोवा सेनाओं-का एलोहीम इस्राएल-का देख-मैं और-करने-वाला-हूँ से- स्थान  
 H3541 H0559 H3068 H0430 H3478 H2009 H4725

וְהָיָה לְעֵינֵיכֶם וּבְיָמֵיכֶם קוֹל שְׁשׁוֹן וְקוֹל שְׂמִיחָה קוֹל דְּלִי  
 इस तुम्हारी-आंखों-के-सामने और-तुम्हारे-दिनों-में आवाज आनन्द-की आवाज और-आवाज की दुलहे-की  
 H2088 H3117 H8342 H8057 H2860

וְקוֹל דְּלִי וְקוֹל כְּלִי:  
 और-आवाज दुलहन-की  
 H3618

इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिशाली यहोवा यह कहता है: ‘मजा उड़ाने वाले लोगों के शोर को शीघ्र ही मैं बन्द कर दूँगा। विवाह की दावत में लोगों के हँसी मजाक की किलकारियों को मैं बन्द कर दूँगा। यह तुम्हारे जीवनकाल में होगा। मैं ये काम शीघ्रता से करूँगा।’

10 וְהָיָה כִּי תִגִּיד לְעַם יְהוָה אֵת כָּל- הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ אֵלָיו עַל-  
 और-होगा जब बताएगा लोगों-से इन को इन सब- वचनों इन और-कहेंगे तुझसे पर-  
 H1961 H5046 H2088 H0853 H3605 H1697 H0428 H0559 H0413

מָה דָּבָר יְהוָה עָלֵינוּ אֵת כָּל- הַרְעָה הַגְּדוֹלָה הַחַיָּת וְמָה עֲוֹנוֹ  
 क्या बोला यहोवा-ने हम-पर हम-को सब- बुराई यह और-क्या हमारा-पाप  
 H4100 H1696 H3068 H0853 H3605 H2063 H4100 H5771

חַטָּאתֵנוּ אֲשֶׁר חָטָאנוּ לִיהוָה אֱלֹהֵינוּ:  
 हमारी-पाप जो पाप-किया-हमने यहोवा-के-विरुद्ध हमारे-एलोहीम  
 H2398 H3068 H0430

“यिर्मयाह, तुम यहूदा के लोगों को ये बातें बताओगे और लोग तुमसे पूछेंगे, ‘यहोवा ने हम लोगों के लिये इतनी भयंकर बातें क्यों कही हैं हमने क्या गलत काम किया है हम लोगों ने यहोवा अपने परमेश्वर के विरुद्ध कौन सा पाप किया है?’

11 וְאָמַרְתָּ וְאֵלֵיהֶם עַל אֲשֶׁר- עָזְבוּ אֲבוֹתֵיכֶם אוֹתִי נֹאֵם- יְהוָה וַיִּלְכוּ אַחֲרַי  
 और-कहना और-कहना उनसे पर जो- त्यागा मुझे मुझ-है- कहता-है- यहीवा और-चले पीछे  
[H0413](#) [H0559](#) [H3212](#) [H3068](#) [H5002](#) [H0853](#) [H0001](#)

וְאֵלֵהֶם וְאֶחָדִים וַיַּעֲבְדוּם וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ לָהֶם וְאֹתִי עָזְבוּ וְאֶת- תּוֹרָתִי  
 एलोहीम दूसरे और-सेवा-की-उनकी और-दण्डवत-किया और-मुझे और-को- त्याग-दिया और-व्यवस्था मेरी  
[H0430](#) [H0312](#) [H5647](#) [H7812](#) [H0853](#) [H0853](#) [H8451](#)

לֹא שָׁמְרוּ: רָחִי  
 नहीं रखी  
[H8104](#) [H3808](#)

तुम्हें उन लोगों से यह कहना चाहिये, 'तुम लोगों के साथ भयंकर घटनायें घटेंगी क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा अनुसरण करना छोड़ा और अन्य देवताओं का अनुसरण करना तथा सेवा करना आरम्भ किया। उन्होंने उन अन्य देवताओं की पूजा की। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे छोड़ा और मेरे नियमों का पालन करना त्यागा।

12 וְאֵתָם הָרַעְתָּם לַעֲשׂוֹת מֵאֲבוֹתֵיכֶם וְהִנֵּכֶם הַלְכִים אִישׁ אַחֲרַי שָׁרְרוּת  
 और-तुम और-बुरा-किया करने-को अपने-पितरों-से करने-हो और-देखो-तुम हरक पीछे हठ  
[H0001](#) [H2009](#) [H1980](#) [H0376](#) [H8307](#)

לְבוֹ- הָרַע לְבַלְתִּי שָׁמַעַ אֱלֹהִים: אֱלֹהִים  
 अपने-हृदय-की- बुरे-के न-सुनने-को सुनने-को मुझे  
[H0413](#) [H8085](#) [H1115](#)

किन्तु तुम लोगों ने अपने पूर्वजों से भी अधिक बुरे पाप किये हैं। तुम लोग बहुत हठी हो और तुम केवल वही करते हो जिसे तुम करना चाहते हो। तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो।

13 וְהַטַּלְתִּי וְהַטַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעַל הָאָרֶץ הַזֹּאת עַל- הָאָרֶץ לֹא יָדַעְתֶּם אֹתָם  
 और-फेंकूंगा और-फेंकूंगा तुम्हें से-ऊपर इस भूमि पर- भूमि तुम जानते-हो नहीं जिसे तुम  
[H2904](#) [H0853](#) [H0776](#) [H2063](#) [H0776](#) [H0776](#) [H3045](#) [H3808](#)

וְאֲבוֹתֵיכֶם וְעַבְדְּתֶם- שָׁם אֶת- אֱלֹהִים אַחֲרֵיהֶם יוֹמָם וּלְיָלָה אֲשֶׁר לֹא- אֶתָּן  
 और-तुम्हारे-पितरों-ने और-सेवा-करोगे- वहां को- एलोहीम दूसरों और-रात दिन और-नहीं-दूंगा  
[H0001](#) [H5647](#) [H8033](#) [H0853](#) [H0430](#) [H0312](#) [H3119](#) [H3915](#) [H3808](#) [H5414](#)

לָכֵן חֲנִינָה: ח  
 तुम्हें कृपा -  
[H2594](#)

अतः मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकाल फेंकूंगा। मैं तुम्हें विदेश में जाने को विवश करूँगा। तुम ऐसे देश में जाओगे जिसे तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं जाना। उस देश में तुम उन सभी असत्य देवताओं की पूजा कर सकते हो जिन्हें तुम चाहते हो। मैं न तो तुम्हारी सहायता करूँगा और न ही तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति दिखाऊँगा।' यह सन्देश यहीवा का है।

14 לָכֵן הִנֵּה- יָמִים בָּאִים נֹאֵם- יְהוָה וְלֹא- יֵאָמַר עוֹד- חַי- יְהוָה  
 इसलिए देखो- दिन आने-वाले-हैं कहता-है- यहीवा और-नहीं- कहा-जाएगा फिर जीवित- यहीवा  
[H2009](#) [H3117](#) [H0935](#) [H5002](#) [H3068](#) [H3808](#) [H0559](#) [H5750](#) [H3068](#)

אֲשֶׁר הָעֵלָה אֶת- בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִצְרָיִם: מִצְרָיִם  
 जिसने निकाला को- बेटों इस्राएल-के देश-से मिस्र  
[H0853](#) [H5927](#) [H0776](#) [H3478](#) [H4714](#)

"लोग प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं, 'यहीवा निश्चय ही शाश्वत है। केवल वही है जो इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लाया' किन्तु समय आ रहा है," जब लोग ऐसा नहीं कहेंगे। यह सन्देश यहीवा का है।

וּמְכַלֵּי וּמְכַלֵּי  
और-सब-से  
H3605

צָפוֹן  
उत्तर-के  
H6828

מֵאֲרָץ  
देश-से  
H0776

יִשְׂרָאֵל  
इस्राएल-के  
H3478

בְּנֵי  
बेटों  
H0853

אֶת-  
को-  
H5927

הָעֵלָה  
निकाला  
H3068

אֲשֶׁר  
जिसने  
H3068

יְהוָה  
यहोवा  
H3068

חַי-  
जीवित-  
H3068

אִם-  
यदि-  
H3068

כִּי  
परन्तु  
H3068

נְתָתִי  
दी-मैंने  
H5414

אֲשֶׁר  
जो  
H5414

אֶדְמָתָם  
उनकी-भूमि  
H0127

עַל-  
पर-  
H0127

וְהַשְׁבֵּתִים  
और-लौटा-गा-उन्हें  
H7725

שָׁמָּה  
वहां  
H8033

הַדְּיָחָם  
बहकाया-उन्हें-उसने  
H5080

אֲשֶׁר  
जहां  
H5080

הָאָרְצוֹת  
देशों  
H0776

לְאֲבוֹתָם :  
- उनके-पितरों-को  
H0001

लोग कुछ नया कहेंगे। वे कहेंगे, 'निश्चय ही यहोवा शाश्वत है। वह ही केवल ऐसा है जो इस्राएल के लोगों को उत्तरी देश से ले आया। वह उन्हें उन सभी देशों से लाया जिनमें उसने उन्हें भेजा था।' लोग ये बातें क्यों कहेंगे क्योंकि मैं इस्राएल के लोगों को उस देश में वापस लाऊँगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया था।

וְאֶחָרֶי-  
और-इसके-बाद-  
H1770

וְדִיגְוִים  
और-मछली-करेंगे-उन्हें  
H3068

יְהוָה  
यहोवा  
H5002

נֹאֵם-  
कहता-है-  
H5002

רַבִּים  
बहुतों  
H1771

(לְרִגְוִים)  
मछुआरों-को  
H1728

שָׁלַח  
भेजने-वाला-हूँ  
H7971

הַנְּנִי  
देख-मैं  
H2009

גְּבֻעָה  
टीले  
H1389

כָּל-  
सब-  
H3605

וּמַעַל  
और-से-ऊपर  
H2022

הָר  
पहाड़  
H3605

כָּל-  
सब-  
H3605

מֵעַל  
से-ऊपर  
H3605

וְצָדִים  
और-शिकार-करेंगे-उन्हें  
H6719

צִידִים  
शिकारियों  
H6719

לְרַבִּים  
बहुतों-की  
H7971

אֲשֶׁלַח  
भेजूंगा  
H7971

כֵּן  
ऐसे  
H7971

וּמִנְקִיָּו  
और-दरारों-से  
H5357

הַסְּלָעִים :  
चट्टानों-के  
H5553

“मैं शीघ्र ही अनेकों मछुआरों को इस देश में आने के लिये बुलाऊँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। “वे मछुआरे यहूदा के लोगों को पकड़ लेंगे। यह होने के बाद मैं बहुत से शिकारियों को इस देश में आने के लिये बुलाऊँगा। वे शिकारी यहूदा के लोगों का शिकार हर एक पहाड़, पहाड़ी और चट्टानों की दरारों में करेंगे।

עֲוֹנָם  
उनका-पाप  
H5771

נִצְפָן  
छुपा  
H6845

וְלֹא-  
और-नहीं-  
H3808

מִלִּפְנֵי  
मेरे-सामने-से  
H6440

נִסְתָּרוּ  
छिपी-हैं  
H5641

לֹא  
नहीं  
H3808

הַרְכִּיחֶם  
उनके-मार्गों  
H1870

כָּל-  
सब-  
H3605

עַל-  
पर-  
H3605

עֵינָי  
मेरी-आंखें  
H3605

כִּי  
क्योंकि  
H3605

מִנְקִיָּו  
सामने-से  
H5048

עֵינָי :  
मेरी-आंखों-के  
H5048

मैं वह सब जो वे करते हैं, देखता हूँ। यहूदा के लोग उन कामों को मुझसे छिपा नहीं सकते जिन्हें वे करते हैं। उनके पाप मुझसे छिपे नहीं हैं।

וְשִׁלְמֹתַי  
और-बदला-दूँगा  
H7223

רְאוּנָה  
पहले  
H4932

מִשְׁנָה  
दोगुना  
H4932

עֲוֹנָם  
उनका-पाप  
H5771

וְחַטָּאתָם  
और-उनकी-पाप  
H5771

עַל  
पर  
H5771

חָלַלְתָּ  
अपवित्र-करने-से-उनके  
H0853

אֶת-  
को-  
H0853

אֶרְצִי  
मेरी-भूमि  
H0776

בְּנִבְלָת  
लाश-से  
H5038

שְׁקֻצֵיהֶם  
उनकी-घृणित-चीजों  
H8251

וְתוֹעֲבוֹתֵיהֶם  
और-उनकी-घृणाओं  
H8441

מִלֵּאָו  
भर-दिया-उन्होंने  
H4390

אֶת-  
को-  
H0853

נִחַלְתִּי :  
मेरी-विरासत  
H5159

ס  
-  
H5159

मैं यहूदा के लोगों ने जो बुरे काम किये हैं, उसका बदला चुकाऊँगा। मैं हर एक पाप के लिये दो बार उनको दण्ड दूँगा। मैं यह करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे देश को 'गन्दा' बनाया है। उन्होंने मेरे देश को भयंकर मूर्तियों से गन्दा किया है। मैं उन देवमूर्तियों से घृणा करता हूँ। किन्तु उन्होंने मेरे देश को अपनी देवमूर्तियों से भर दिया है।”

וְהוָה  
यहोवा  
H3068

עָזָו  
मेरा-बल  
H5797

וּמַעֲזָו  
और-मेरा-गढ़  
H4581

וּמְנוֹסֵי  
और-मेरी-शरण  
H4498

בְּיָמָיו  
में-दिन  
H3117

צָרָה  
संकट-के  
H0413

אֶלֶיךָ  
तेरे-पास  
H0413

גּוֹיִם  
जातियां  
H0935

יְבֹאוּ  
आएंगी  
H0935

מֵאֲפֹסֵי-  
छोरों-से-  
H0776

אֶרֶץ  
पृथ्वी  
H0776

וַיֵּאמְרוּ  
और-कहेंगे  
H0559

אֶת-  
निश्चय-  
H0389

שָׁקָר  
झूठ  
H8267

נִחַלְתָּ  
विरासत-में-पाए  
H5157

אֲבוֹתֵינוּ  
हमारे-पितरों-ने  
H0001

הַקָּבֵל  
व्यर्थ  
H1892

וְאֵין-  
और-कोई-नहीं-  
H0369

כָּם  
उनमें  
H0369

מוֹעִיל :  
लाभदायक  
H3276

हे यहोवा, तू मेरी शक्ति और गढ़ है। विपत्ति के समय भाग कर बचने की तू सुरक्षित शरण है। सारे संसार से राष्ट्र तेरे पास आएंगे। वे कहेंगे, “हमारे पिता असत्य देवता रखते थे। उन्होंने उन व्यर्थ देवमूर्तियों की पूजा की, किन्तु उन देवमूर्तियों ने उनकी कोई सहायता नहीं की।

20  
 אֱלֹהִים: לֹא וְהָמָּה אֱלֹהִים אָדָם לִי הַיְעֲשֶׂה- 20  
 एलोहीम नहीं और-वे एलोहीम आदमी अपने-लिए बनाएगा-  
[H0430](#) [H3808](#) [H1992](#) [H0430](#) [H0120](#)

क्या लोग अपने लिये सच्चे देवता बना सकते हैं नहीं, वे मूर्तियाँ बना सकते हैं, किन्तु वे मूर्तियाँ सचमुच देवता नहीं है।”

21  
 וְאֵת- יָדַי אֶת- אֹדְיָיִם הִזְאֵת בְּפִעַם מוֹדִיעִים הִנְנִי לְכֹן 21  
 और-को- मेरे-हाथ को- जानकारी-दूंगा-उन्हें इस में-बार जानकारी-देने-वाला-हूँ-उन्हें देख-मैं इसलिए  
[H0853](#) [H3027](#) [H0853](#) [H3045](#) [H2063](#) [H6471](#) [H3045](#) [H2009](#)

וּ - : הַנְּהָה שְׁמִי כִי- וַיִּדְעוּ נְבוֹרָתִי  
 - यहोवा मेरा-नाम कि- और-जाँगे मेरी-शक्ति  
[H3068](#) [H8034](#) [H3045](#) [H1369](#)

“अतः मैं उन लोगों को सबक सिखाऊँगा, जो देवमूर्तियों को देवता बनाते हैं। अब मैं सीधे अपनी शक्ति और प्रभुता के बारे में शिक्षा दूँगा। तब वे समझेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ। वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है।